

## प्रेस नोट थाना देहलीगेट, अलीगढ़ दि०. 13.04.2021

### पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय के आदेशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर श्री कुलदीप सिंह गुनावत के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देहलीगेट के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराधियों की गिरफ्तारी के तहत थाना देहली गेट पुलिस के द्वारा गस्त करते हुए गौण्डा रोड की तरफ जा रहे थे जब सुभाष माध्यमिक विद्यालय से पहले धर्मकाँटे के सामने पहुंचे तो मोटर साइकिल की लाइट में सामने से दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जो अचानक ठिठके और पुलिस वालों को देखकर कब्रिस्तान के अन्दर की तरफ तेजी से भागे शक होने पर एक बारगी दबिश देकर कब्रिस्तान के अन्दर दोनों व्यक्ति नईमुद्दीन उर्फ हनी सिंह पुत्र मेरूद्दीन निवासी गोला नई आवादी थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ व शहनवाज उर्फ नाऊ पुत्र मौ० आरिफ निवासी कवाडी मार्केट एडीए कालोनी थाना देहली गेट अलीगढ़ को पकड़ लिया। जिनके संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शहनवाज उर्फ नाऊ पुत्र मौ० आरिफ निवासी कवाडी मार्केट एडीए कालोनी थाना देहली गेट, अलीगढ़
2. नईमुद्दीन उर्फ हनी सिंह पुत्र मेरूद्दीन निवासी गोला नई आवादी थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़

### आपराधिक इतिहास- (शहनवाज उर्फ नाऊ)-

1. मु०अ०सं० 290/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना देहली गेट, अलीगढ़
2. मु०अ०सं० 291/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देहली गेट, अलीगढ़
3. मु०अ०सं० 60/2016 धारा 379 भादवि० थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़

4. मु०अ०सं० 151/2019 धारा 420/467/468/471 भादवि० थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़
5. मु०अ०सं० 215/20 धारा 380 भादवि० थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़
6. मु०अ०सं० 405/19 धारा 392 भादवि० थाना बन्ना देवी, अलीगढ़

**आपराधिक इतिहास- (नईमुद्दीन उर्फ हनी सिंह)-**

1. मु०अ०सं० 292/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना देहली गेट, अलीगढ़
2. मु०अ०सं० 293/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देहली गेट, अलीगढ़
3. मु०अ०सं० 215/20 धारा 380 भादवि० थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़
4. मु०अ०सं० 217/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामदगी:-**

- 1-02 तमंचा 315 बोर
- 2-02 कारतूस 315 बोर
- 3-490 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम

**पुलिस पार्टी:-**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार सिंह थाना देहलीगेट, अलीगढ़
- 2-उ०नि० श्री अमित कुमारथाना देहलीगेट, अलीगढ़
- 3-है०का० 514 हीरा लालथाना देहलीगेट, अलीगढ़
- 4-का० 764 नटवर सिंह थाना देहलीगेट, अलीगढ़

